

## प्रेस नोट

### \*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज\*

\*दिनांक- सितम्बर 26 , 2020\*

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **\*92 वाहनों का चालान व 15 वाहनों से कुल 11000/-रूपया शमन शुल्क वसूल\*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया। व 03 वाहन को सीज किया गया।

**\*कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा **\*188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 36\*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व **\*मास्क न लगाने वाले कुल- 117 व्यक्तियों से 11700/- रुपये शमन शुल्क\*** वसुला गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **\*कुल- 14 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार\*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया। धारा 290 भा0द0वि0 मे 45 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

**\*अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध की गई कार्यवाही:-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल- 04 अभि0 को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 05 ली0 कच्ची व 39 शीशी नेपाली शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण-

**\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त रामदयाल मुसहर पुत्र दहारी नि0 कलनही थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से **\*05 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर \*मु0अ0सं0-405/20, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम\*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया ।

**\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** 1. अभियुक्त राजेन्द्र चौधरी पुत्र रामदास नि० कनभिसवा थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से \*14 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर \*मु०अ०सं०-406/20, धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम\* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया

2. अभियुक्त अमेरिका चौधरी पुत्र खुन्दर नि० रूधौली अभय टोला थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से \*13 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर \*मु०अ०सं०- 407/20, धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम\* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया

3. अभियुक्त मनोज पुत्र अमेरिका नि० रूधौली अभय टोला थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से \*12 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर \*मु०अ०सं०- 408/20, धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम\* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए \*कुल-29\* विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

**\*जनपद में 25/26/09/2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 18 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\***